



मध्यप्रदेश राज्यपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 258]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 जून 2015—आषाढ़ 9, शक 1937

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 29 जून 2015

क्र. 7997-एस.डब्ल्यु-2015.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सरल क्रमांक 2) की धारा 2 के खण्ड (एस) एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ-2(क)15-99बी-3-2, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक एफ-2(क)-9-06-बी-3-2, दिनांक 30 जुलाई 2010 के अनुसार कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए समिति की बैठक दिनांक 29 जून 2015 में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निम्न अनुसूची में विविर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक रूपान्तरण करते हुए, राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सरदारपुर की स्थापना मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से नवीन पुलिस अनुविभागीय अधिकारी सरदारपुर, जिला धार का क्षेत्र घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

क्रमांक	नवीन अनुविभाग का नाम	अधिकारिता का वर्तमान क्षेत्र	उस अनुभाग का नाम जहां से कॉलम नं. (3) में दर्शित स्थान को अपवर्जित किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)
1	पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, सरदारपुर, जिला धार.	1. थाना सरदारपुर 2. थाना राजोद 3. थाना अमरेश्वर	पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, कुक्षी, जिला धार. पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, बदनावर, जिला धार. पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, मनावर, जिला धार.

क्र. 7999-एस.डब्ल्यू-2015.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सरल क्रमांक 2) की धारा 2 के खण्ड (एस) एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ-2(क)15-99बी-3-2, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक एफ-2(क)-9-06-बी-3-2, दिनांक 30 जुलाई 2010 के अनुसार कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए समिति की बैठक दिनांक 29 जून 2015 में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निम्न अनुसूची में विविर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक रूपान्तरण करते हुए, राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) धामनोद की स्थापना मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से नवीन पुलिस अनुविभागीय अधिकारी धामनोद, जिला धार का क्षेत्र घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

क्रमांक	स्थानों के नाम	अधिकारिता का स्थानीय क्षेत्र	उस अनुभाग का नाम जहां से कॉलम नं. (3) में दर्शित स्थान को अपवर्जित किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)
1	पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, धामनोद, जिला धार.	1. थाना धामनोद 2. थाना नालछा 3. थाना माण्डव	नगर पुलिस अधीक्षक, पीथमपुर नगर पुलिस अधीक्षक, पीथमपुर नगर पुलिस अधीक्षक, पीथमपुर

क्र. 7801-एस.डब्ल्यू-2015.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सरल क्रमांक 2) की धारा 2 के खण्ड (एस) एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ-2(क)15-99बी-3-2, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक एफ-2(क)-9-06-बी-3-2, दिनांक 30 जुलाई 2010 के अनुसार कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए समिति की बैठक दिनांक 29 जून 2015 में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निम्न अनुसूची में विविर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक रूपान्तरण करते हुए, राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए नवीन पुलिस थाना नौगांव, धार, जिला धार की स्थापना मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से नवीन पुलिस थाना नौगांव धार, जिला धार का क्षेत्र घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

क्रमांक	स्थानों के नाम	अधिकारिता का स्थानीय क्षेत्र	उस थाने का नाम जहां से कॉलम नं. (3) में दर्शित स्थान को अपवर्जित किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)
1	पुलिस थाना नौगांव, जिला धार.	1 धार 2 जेतपुरा 3 तोरनोद 4 खिलचीपुरा 5 कालूखेड़ी	थाना धार थाना धार थाना धार थाना धार थाना धार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुलिस थाना नौगांव, जिला धार.	6	मलगांव	-	थाना धार	
	7	सुनारखेड़ी	-	थाना धार	
	8	जामन्दा	-	थाना धार	
	9	उटावद	-	थाना धार	
	10	मेहन्दीखेड़ी	-	थाना धार	
	11	दौलतपुरा	-	थाना धार	
	12	न्यामतखेड़ी	-	थाना धार	
	13	कडोदाखुर्द	-	थाना धार	
	14	मतलबपुरा	-	थाना धार	
	15	आमखेड़ा	-	थाना धार	
	16	नेपावली	-	थाना सादलपुर	
	17	नवासा	-	थाना सादलपुर	
	18	ताजपुर	-	थाना सादलपुर	
	19	अनारद	-	थाना सादलपुर	
	20	बड़ाउमरिया	-	थाना सादलपुर	
	21	लबरावदा	-	थाना तिरला	
	22	लसुडिया	-	थाना तिरला	
	23	पचलाना	-	थाना तिरला	

क्र. 7803-एस.डब्ल्यू-2015.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सरल क्रमांक 2) की धारा 2 के खण्ड (एस) एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ-2(क)15-99बी-3-2, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक एफ-2(क)-9-06-बी-3-2, दिनांक 30 जुलाई 2010 के अनुसार कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए समिति की बैठक दिनांक 29 जून 2015 में तिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक रूपान्तरण करते हुए, राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए नवीन पुलिस थाना सेक्टर नम्बर 1, पीथमपुर, जिला धार की स्थापना मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से नवीन पुलिस थाना सेक्टर नम्बर 1, पीथमपुर, जिला धार का क्षेत्र घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	पुलिस थाना सेक्टर नं. 1, पीथमपुर.	1	पीथमपुर	10. वृन्दावन कालोनी 11. वैष्णव कालोनी 12. बाण्डीखाली 13. पटेल मोहल्ला 14. सरगरा मोहल्ला 15. जोशी मोहल्ला 16. मीणा मोहल्ला 17. चौकसे मोहल्ला 18. हाउसिंग बोर्ड कालोनी 19. रामरत्न पटेल कालोनी 20. आयशर चौराहा 21. गायत्री कालोनी 22. मेकेनिक नगर 23. मनमानी कालोनी 24. सीसी कालोनी	थाना पीथमपुर थाना पीथमपुर
2	अकोलिया		अकोलिया	1. अकोलिया 2. प्रीतिनगर 3. डाक बंगला अकोलिया 4. मरीमाता पहाड़ी 5. श्री कुंज कालोनी	थाना पीथमपुर थाना पीथमपुर थाना पीथमपुर थाना पीथमपुर थाना पीथमपुर
3		3		1. धनड 2. आदर्श नगर धनड 3. अग्रवाल कालोनी 4. धनडखुर्द	थाना पीथमपुर थाना पीथमपुर थाना पीथमपुर थाना पीथमपुर
4	भोण्डया			1. भोण्डया 2. बजरंग नगर 3. संजय जलाशय रोड 4. एकता नगर कालोनी फोरलेन.	थाना पीथमपुर थाना पीथमपुर थाना पीथमपुर थाना पीथमपुर
5	तारपुरा	5		-	थाना पीथमपुर
6	सिलोटिया	6		-	थाना पीथमपुर

क्र. 7805-एस-डब्ल्यू-2015.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सरल क्रमांक-2) की धारा 2 के खण्ड (एस) एवं शासन के आदेश क्रमांक-एफ-2(क)-15-99-बी-3-2, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक एफ-2(क)-9-06-बी-3-2, दिनांक 30 जुलाई 2010 के अनुसार कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए समिति की बैठक दिनांक 29 जून 2015 में लिए गए निर्णय के परिवेश में निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक रूपान्तरण करते हुए, राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए नवीन पुलिस चौकी रिंगनोद, थाना सरदारपुर, जिला धार की स्थापना मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से नवीन पुलिस चौकी रिंगनोद थाना सरदारपुर जिला धार का क्षेत्र घोषित किया जाता है:—

अनुसूची

क्रमांक (1)	स्थानों के नाम (2)	क्रमांक (3)	गांव का नाम (4)
1	पुलिस चौकी	1	रिंगनोद
	रिंगनोद थाना	2	रत्नपुरा
	सरदारपुर.	3	करोन्दिया
		4	उण्डेल
		5	मालपुरिया
		6	गुमानपुरा
		7	ढाकनबारी
		8	मउडी
		9	फुलझर
		10	खलवा
		11	होलातलाई
		12	बिमरोड
		13	नयापुरा
		14	ताराघाटी
		15	रंगपुरा
		16	अम्बामाल
		17	कोसिया
		18	अजंनमाल
		19	भीलखेड़ी
		20	बागपिपलिया
		21	चुनारिया
		22	सुहाना
		23	उमरियाकला
		24	केशरपुरा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 29 जून 2015

क्र. 1553-एस.डब्ल्यू.-2015.—पुलिस अधीक्षक देवास के पत्र क्रमांक/डीपीओ/देवास/एसी/I-901-A/2015, दिनांक 24 जून 2015 के अनुसार शहर के भीतर थाने का परिसीमन बाबत् जनसुविधाओं एवं प्रशासकीय सुविधा के अनुरूप किये जाने हेतु जिले स्तर पर गठित समिति द्वारा थानों का परिसीमन प्रस्ताव प्राप्त हुए एवं शासन के पत्र क्रमांक एफ 2(क)-20/2014/बी-3/दो, भोपाल, दिनांक 18 मई 2015 एवं पुलिस मुख्यालय के पृष्ठांकन क्रमांक/पुम/18/योजना/3/6-ए, दिनांक 18 मई 2015 के प्रावधानानुसार जिले के भीतर थानों की सीमाओं का अधिकार/परिसीमन निर्धारण करने के अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं।

अतः, मैं, आशुतोष अवस्थी, जिला दण्डाधिकारी, जिला देवास दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का स.-2 की धारा 2 के खण्ड एस. द्वारा प्रदत्त शक्तियों को अमल में लारे हुए निर्मांकित अनुसूची में वर्णित देवास जिला अन्तर्गत अनुभाग देवास के पुलिस थाना सिविल लाईन का परिसीमन संबंधी प्रस्ताव की अधिसूचना जारी करता हूँ :—

नवीन थाना सिविल लाईन, देवास

क्रमांक (1)	पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया जाना है। (थाना कोतवाली, औं क्षेत्र, बीएनपी)	नवीन थाने का नाम (2)	थाने से दूरी कि.मी. में (3)	पुलिस थाना सिविल लाईन जिसमें सम्मिलित किया जाना है (4)	(5)
1	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	3 कि.मी.	1 केलादेवी मंदिर	
2	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	3 कि.मी.	मिश्रीलाल नगर	
3	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	3 कि.मी.	कारोली नगर	
4	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	3 कि.मी.	बजरंग नगर	
5	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	3 कि.मी.	तिलक नगर	
6	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	3 कि.मी.	वनमंडल क्षेत्र	
7	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	3 कि.मी.	पंचशील नगर	
8	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	3 कि.मी.	रामनगर क्षेत्र	
9	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	3 कि.मी.	रामनगर एक्स्ट्रैशन	
10	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	1 कि.मी.	सिविल लाईन (पश्चिम)	
11	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	3 कि.मी.	शिक्षक नगर	
12	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	3 कि.मी.	जयश्री नगर	
13	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	2 कि.मी.	आदर्श कालोनी	
14	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	3 कि.मी.	कुबेर नगर	
15	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	2 कि.मी.	मुखर्जी नगर	
16	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	2 कि.मी.	अल्कापुरी कालोनी	
17	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	2 कि.मी.	अनुकूल नगर	
18	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	2 कि.मी.	विजय नगर	
19	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	2 कि.मी.	राजीव गांधी नगर	
20	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	1 कि.मी.	बीमा अस्पताल क्षेत्र	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	3 कि.मी.	शिव शक्ति नगर
22	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	3 कि.मी.	गोरव नगर
23	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	3 कि.मी.	रानीबाग कालोनी
24	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	3 कि.मी.	मैनाश्री कालोनी
25	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	3 कि.मी.	नगर निगम कालोनी
26	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	3 कि.मी.	त्रिवेणी नगर
27	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	3 कि.मी.	नौसराबाद कालोनी
28	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	3 कि.मी.	विश्वकर्मा नगर
29	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	1 कि.मी.	वर्धमान नगर
30	थाना औ. क्षेत्र, देवास	सिविल लाईन, देवास	3 कि.मी.	चाणक्यपुरी
31	थाना औ. क्षेत्र, देवास	सिविल लाईन, देवास	3 कि.मी.	चाणक्यपुरी एक्सटेशन
32	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	500 मी.	राजाराम नगर
33	थाना औ. क्षेत्र, देवास	सिविल लाईन, देवास	500 मी.	उपाध्याय नगर
34	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	500 मी.	नेहरू नगर
35	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	500 मी.	सीताराम नगर
36	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	2 कि.मी.	गोपाल नगर ईटावा
37	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	2 कि.मी.	निमाड नगर ईटावा
38	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	2 कि.मी.	पुराना ईटावा क्षेत्र
39	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	2 कि.मी.	राजीव नगर ईटावा
40	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	2 कि.मी.	त्रिलोक नगर ईटावा
41	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	2 कि.मी.	चित्रगुप्त नगर ईटावा
42	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	2 कि.मी.	सिद्धार्थ नगर ईटावा
43	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	2 कि.मी.	महादेव नगर ईटावा
44	थाना औ. क्षेत्र, देवास	सिविल लाईन, देवास	3 कि.मी.	मेढ़कीचक
45	थाना औ. क्षेत्र, देवास	सिविल लाईन, देवास	5 कि.मी.	लोहारी
46	थाना औ. क्षेत्र, देवास	सिविल लाईन, देवास	6 कि.मी.	चंदाना
47	थाना औ. क्षेत्र, देवास	सिविल लाईन, देवास	6 कि.मी.	पुवाल्डा
48	थाना औ. क्षेत्र, देवास	सिविल लाईन, देवास	7 कि.मी.	सिरोंज
49	थाना औ. क्षेत्र, देवास	सिविल लाईन, देवास	8 कि.मी.	बाडोली
50	थाना औ. क्षेत्र, देवास	सिविल लाईन, देवास	8 कि.मी.	अन्तरालिया
51	थाना औ. क्षेत्र, देवास	सिविल लाईन, देवास	8 कि.मी.	मरेठी
52	थाना औ. क्षेत्र, देवास	सिविल लाईन, देवास	8 कि.मी.	होशियारखेड़ी
53	थाना औ. क्षेत्र, देवास	सिविल लाईन, देवास	8 कि.मी.	आंट
54	थाना औ. क्षेत्र, देवास	सिविल लाईन, देवास	8 कि.मी.	रुणखेड़ी
55	थाना औ. क्षेत्र, देवास	सिविल लाईन, देवास	8 कि.मी.	देवर
56	थाना औ. क्षेत्र, देवास	सिविल लाईन, देवास	8 कि.मी.	पंचतालाब
57	थाना औ. क्षेत्र, देवास	सिविल लाईन, देवास	8 कि.मी.	बेरागढ
58	थाना औ. क्षेत्र, देवास	सिविल लाईन, देवास	8 कि.मी.	छायन
59	थाना बीएनपी, देवास	सिविल लाईन, देवास	8 कि.मी.	अचलूखेड़ी
60	थाना बीएनपी, देवास	सिविल लाईन, देवास	8 कि.मी.	सिंगाबदा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
61	थाना बीएनपी, देवास	सिविल लाईन, देवास	7 कि.मी.	नागूखेड़ी
62	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	4 कि.मी.	नौसरावाद कालोनी
63	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	4 कि.मी.	उज्जैन रोड औ. क्षेत्र ऐरिया
64	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	4 कि.मी.	प्रताप नगर
65	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	3 कि.मी.	हरिओम नगर
66	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	3 कि.मी.	स्वास्तिक नगर
67	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	3 कि.मी.	अर्जुन नगर आडा काकड
68	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	3 कि.मी.	राजाबाग कालोनी ईटावा
69	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	3 कि.मी.	विनायक नगर
70	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	2 कि.मी.	उत्तम नगर
71	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	2 कि.मी.	पुष्पकुंज कालोनी
72	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	2 कि.मी.	अन्नपूर्णा नगर
73	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	2 कि.मी.	एकता नगर
74	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	2 कि.मी.	साईनाथ नगर
75	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	2 कि.मी.	विक्रम नगर
76	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	2 कि.मी.	विशाल नगर
77	थाना कोतवाली, देवास	सिविल लाईन, देवास	2 कि.मी.	जालाराम नगर.

- नोट.— 1. पुराना विद्युत मंडल से बनमंडल रोड का उत्तरी भाग थाना सिविल लाईन में रहेगा।
 2. देवास-उज्जैन मार्ग पर स्थित रेलवे ओवर ब्रीज थाना कोतवाली देवास क्षेत्र में रहेगा।

क्र. 1569-एस.डब्ल्यू.-2015.—पुलिस अधीक्षक देवास के पत्र क्रमांक/डीपीओ/देवास/एसी/I-901-A/2015, दिनांक 24 जून 2015 के अनुसार शहर के भीतर थाने का परिसीमन बाबत् जनसुविधाओं एवं प्रशासकीय सुविधा के अनुरूप किये जाने हेतु जिले स्तर पर गठित समिति द्वारा थानों का परिसीमन प्रस्ताव प्राप्त हुए एवं शासन के पत्र क्रमांक एफ 2(क)-20/2014/बी-3/दो, भोपाल, दिनांक 18 मई 2015 एवं पुलिस मुख्यालय के पृष्ठांकन क्रमांक/पुमु/18/योजना/3/6-ए, दिनांक 18 मई 2015 के प्रावधानानुसार जिले के भीतर थानों की सीमाओं का अधिकार/परिसीमन निर्धारण करने के अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं।

अतः, मैं, आशुतोष अवस्थी, जिला दण्डाधिकारी, जिला देवास दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का स.-2 की धारा 2 के खण्ड एस. द्वारा प्रदत्त शक्तियों को अपमल में लाते हुए निम्नांकित अनुसूची में वर्णित देवास जिला अन्तर्गत अनुभाग देवास के पुलिस थाना नाहर दरवाजा का परिसीमन संबंधी प्रस्ताव की अधिसूचना जारी करता हूँ :—

नवीन थाना नाहर दरवाजा, देवास

क्रमांक	पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया जाना है। (थाना कोतवाली, बीएनपी)	नवीन थाने का नाम	थाने से दूरी कि.मी. में	पुलिस थाना, नाहर दरवाजा जिसमें सम्मिलित किया जाना है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	थाना कोतवाली, देवास	नाहर दरवाजा, देवास	3 कि.मी.	भवानी सागर
2	थाना कोतवाली, देवास	नाहर दरवाजा, देवास	3 कि.मी.	नाथमोहल्ला
3	थाना कोतवाली, देवास	नाहर दरवाजा, देवास	3 कि.मी.	गवली मोहल्ला

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	थाना बीएनपी, देवास	नाहर दरवाजा, देवास	3 कि.मी.	रेवाबाग कालोनी
5	थाना बीएनपी, देवास	नाहर दरवाजा, देवास	3 कि.मी.	जयशिव कालोनी
6	थाना बीएनपी, देवास	नाहर दरवाजा, देवास	3 कि.मी.	नुसरत नगर
7	थाना बीएनपी, देवास	नाहर दरवाजा, देवास	3 कि.मी.	वारसी नगर एवं गफूर बस्ती
8	थाना कोतवाली, देवास	नाहर दरवाजा, देवास	3 कि.मी.	पठान कुंआ
9	थाना कोतवाली, देवास	नाहर दरवाजा, देवास	3 कि.मी.	मोहसीनपुरा
10	थाना कोतवाली, देवास	नाहर दरवाजा, देवास	2 कि.मी.	नयापुरा
11	थाना कोतवाली, देवास	नाहर दरवाजा, देवास	3 कि.मी.	रज्जबअली मार्ग
12	थाना कोतवाली, देवास	नाहर दरवाजा, देवास	3 कि.मी.	तुकोर्गंज रोड
13	थाना कोतवाली, देवास	नाहर दरवाजा, देवास	2 कि.मी.	कवि कालीदस मार्ग
14	थाना कोतवाली, देवास	नाहर दरवाजा, देवास	3 कि.मी.	कृष्णपुरा
15	थाना कोतवाली, देवास	नाहर दरवाजा, देवास	3 कि.मी.	1 बड़ा बाजार
16	थाना कोतवाली, देवास	नाहर दरवाजा, देवास	3 कि.मी.	भेरुगढ़
17	थाना कोतवाली, देवास	नाहर दरवाजा, देवास	3 कि.मी.	मोमन टोला
18	थाना कोतवाली, देवास	नाहर दरवाजा, देवास	3 कि.मी.	परमानंद कालोनी
19	थाना कोतवाली, देवास	नाहर दरवाजा, देवास	3 कि.मी.	जयभारत नगर
20	थाना कोतवाली, देवास	नाहर दरवाजा, देवास	2 कि.मी.	मुक्ति मार्ग
21	थाना कोतवाली, देवास	नाहर दरवाजा, देवास	2 कि.मी.	जय बजरंग नगर
22	थाना बीएनपी, देवास	नाहर दरवाजा, देवास	500 मी.	मीठा तालाब
23	थाना बीएनपी, देवास	नाहर दरवाजा, देवास	3 कि.मी.	के. पी. कालेज
24	थाना बीएनपी, देवास	नाहर दरवाजा, देवास	3 कि.मी.	भोपाल चौराहा
25	थाना बीएनपी, देवास	नाहर दरवाजा, देवास	3 कि.मी.	सर्किट हाउस
26	थाना बीएनपी, देवास	नाहर दरवाजा, देवास	3 कि.मी.	लक्ष्मीबाई मार्ग
27	थाना बीएनपी, देवास	नाहर दरवाजा, देवास	5 कि.मी.	राजोदा
28	थाना बीएनपी, देवास	नाहर दरवाजा, देवास	4 कि.मी.	खेताखेड़ी
29	थाना बीएनपी, देवास	नाहर दरवाजा, देवास	1 कि.मी.	केशव बाग
30	थाना बीएनपी, देवास	नाहर दरवाजा, देवास	2 कि.मी.	भोपाल चौराहा से भोपाल बायपास चौराहे तक दाहिना हिस्सा नाहर दरवाजा क्षेत्र में। भोपाल बायपास से इन्दौर रोड पौजी ढाबा थाना औ. क्षेत्र की सीमा तक नाहर दरवाजा का क्षेत्र रहेगा।
31	थाना बीएनपी, देवास	नाहर दरवाजा, देवास	3 कि.मी.	राजोदा से गैस गोडाउन वाला रास्ता जो भोपाल रोड तक नाहर दरवाजा में रहेगा।
32	थाना बीएनपी, देवास	नाहर दरवाजा, देवास	3 कि.मी.	बीसीएम स्कूल देवास गोविंद नगर वृद्धा आश्रम राजोदा रोड 42, जिला जेल देवास।
33	थाना बीएनपी, देवास	नाहर दरवाजा, देवास	1 कि.मी.	
34	थाना बीएनपी, देवास	नाहर दरवाजा, देवास	1 कि.मी.	
35	थाना बीएनपी, देवास	नाहर दरवाजा, देवास	1 कि.मी.	
36	थाना बीएनपी, देवास	नाहर दरवाजा, देवास	1 कि.मी.	
37	थाना बीएनपी, देवास	नाहर दरवाजा, देवास	2 कि.मी.	

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

रायसेन, दिनांक 22 जून 2015

क्र. 7622-एस-डब्ल्यू-2015.—मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ-2(क)-09-08-बी-3-दो, दिनांक 30 जुलाई, 2010 द्वारा जिले के भीतर नव निर्मित थाना / चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तरीय समिति को प्रत्यायोजित कर कलेक्टर्स को अधिसूचना जारी करने के लिये पदेन उपसचिव भी घोषित किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ-2(क)-20-2014-बी-3-दो, भोपाल, दिनांक 18 मई 2015 मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ-2 द्वारा पुलिस चौकी “भोजपुर” की स्थापना के लिये पदों का सृजन किये जाने से नवीन पुलिस चौकी की स्थापना दिनांक 1 जुलाई 2015 से की जाना है।

अतएव, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2, सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (एस) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा नीचे दी गयी सारणी में वर्णित संबंधित पुलिस थाना में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करने वाली पूर्व की अधिसूचना के की तारीख से :—

- (एक) नीचे दी गई सारणी में कॉलम (2) में उल्लेखित पुलिस थाने से सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अपवर्जित करती है और।
- (दो) “भोजपुर” जो जिला रायसेन के थाना ओबेदुल्लागंज एवं तहसील गौहरगंज अन्तर्गत है को “पुलिस चौकी” घोषित करती है एवं सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को उक्त पुलिस चौकी में सम्मिलित करती है:—

सारणी

क्र. (1)	उस पुलिस थाने का नाम, तहसील व जिला जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्रों के नाम (3)
1	थाना ओबेदुल्लागंज, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन	भोजपुर
2	-,,-	रेसलपुर
3	-,,-	आशापुरी
4	-,,-	मुरारी
5	-,,-	नीमखेड़ा
6	-,,-	हाजली
7	-,,-	खसरोद
8	-,,-	वीलाखेड़ी
9	-,,-	पढ़रई
10	-,,-	सलकनी
11	-,,-	आंखखेड़ी

(1)	(2)	(3)
12	थाना ओबेदुल्लागंज, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन	कीरतनगर
13	-,-	मेदुआ
14	-,-	सनोटी
15	-,-	खिल्लीखेड़ा
16	-,-	दादपुर
17	-,-	गेंहूखेड़ा
18	-,-	मगरपूँछ
19	-,-	पारखेड़ी
20	-,-	ईटखेड़ी
21	-,-	सिंगलदीप
22	-,-	डाटखेड़ा
23	-,-	जमुनिया
24	-,-	रोजड़ा
25	-,-	अम्बाई
26	-,-	बैजलपुर
27	-,-	नगरी
28	-,-	चपलासिर
29	-,-	खेरीटप्पा

जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.